

## लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

### Press Note 10 July 2020

लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो० आलोक कुमार राय ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस सत्र से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था प्रारम्भ की है, जिसके तहत विभिन्न महाविद्यालयों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए केन्द्रीय प्रणाली में सम्मिलित होने का आवेदन किया है। उन महाविद्यालयों का ब्योरा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों के सीटों की जानकारी के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट के admission पेज पर अपलोड कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में प्रवेशाभिलाषी अभ्यर्थी यह सूचना वेबसाइट से प्राप्त कर पाएंगे कि सिर्फ एक लखनऊ विश्वविद्यालय का फार्म भरेके वह कितने और महाविद्यालयों में स्वतः आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही B.J.M.C. तथा B.Sc.(Agriculture) के पाठ्यक्रमों का प्रवेश फार्म भी जारी कर दिया गया है क्योंकि इन पाठ्यक्रमों का प्रवेश विश्वविद्यालय सिर्फ महाविद्यालयों के लिए करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से विद्यार्थियों को बहुत सुविधा होगी और कोरोना संकट में उन्हें अलग-अलग महाविद्यालयों में फार्म नहीं भरना पड़ेगा।

## लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

विधि विभाग लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा विधिक शोध प्रक्रिया पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रोग्राम का समापन आज प्रोफेसर प्रीति सक्सेना, डायरेक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज, अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर अमरपाल सिंह, डीन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ लॉ एंड लीगल स्टडीज के वक्तव्य से हुआ। इसके पहले ६ जुलाई को प्रोफेसर सी. पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग ने सभी स्पीकर्स एवं छात्रों का स्वागत किया। प्रोफेसर अमरपाल सिंह ने जहा कहा की 'थिंकिंग ऑफ़ लॉ इस थिंकिंग ऑफ़ गॉड' प्रोफेसर प्रीति सक्सेना ने कहा नए शोध के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड की 'कण्ट्रोल सी' एवं 'कण्ट्रोल वी' कीस का उपयोग बंद करना होगा. पांच दिन तक चले इस प्रोग्राम मे देश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज से करीब तेरह विशेषागयो ने वक्तव्य दिए, जिसमे भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, से डॉ अनुरागदीप, नेशनल लुनिवेर्सिटी ऑफ़ लॉ, भोपाल से डॉ अतुल पाण्डेय, डॉ जया श्रीवास्तव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से, डॉ जॉन्सन मिंज, TISS मुम्बई से, डॉ मधुकर शर्मा, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, नागपुर से, डॉ राजश्वेत शिंखल, झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची से, डॉ मृणाल मंजरी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से, डॉ मनीष बाजपाई, राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ से, तथा डॉ ज्योति मिश्रा, टैगोर लाइब्रेरी, लखनऊ विश्वविद्यालय से ने शोध से सम्बंधित विभिन्न विषयो से प्रतिभागियों को अवगत कराया। देश के विभिन्न संस्थानों से अस्सी विधि के छात्रों जिसमे शोध छात्र, एल एल एम छात्र, एवं विधि के प्रवक्ताओ ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम को विधि विभाग की सहायक प्रवक्ता, डॉ ऋचा सक्सेना, ने दो तकनिकी सहयोगियों, आयुष प्रताप सिंह एवं सौरव सिंह के साथ कोआर्डिनेट किया।